



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ४, अंक १५]

गुरुवार, एप्रिल २६, २०१८/वैशाख ६, शके १९४०

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 26th April 2018

NOTIFICATION

No. BIE. 2018/C.R. 272/18/33.— Whereas, the seats of six (6) members of the Legislative Council of the State of Maharashtra, elected from the Local Authorities' Constituencies, specified in column (1) of the table below, as per the numbers shown in the corresponding entries in column (2) of the table, are going to become vacant, on the dates mentioned in the corresponding entries in column (3) of the Table ; and

Whereas, a biennial election has to be held for the purpose of filling the vacancies so arising ; and

Whereas, the term of office of the members to be elected to the above Legislative Council from the said Local Authorities' Constituencies shall be subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 17123/2015 (Election Commission of India Vs Devesh Chandra Thakur and Others) ;

Now, therefore, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Maharashtra is hereby pleased to call upon each of said Local Authorities' Constituencies, specified in column (1) of the Table below, to elect the number of members, specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

TABLE

Names of Local Authorities' Constituency	No. of members to be elected	Date of retirement
(1)	(2)	(3)
Raigad-cum-Ratnagiri-cum-Sindhudurg Local Authorities' Constituency.	1	31.05.2018

TABLE—Contd.

(1)	(2)	(3)
Nashik Local Authorities' Constituency	1	21.06.2018
Wardha-cum-Chandrapur-cum-Gadchiroli Local Authorities' Constituency.	1	
Parbhani-cum-Hingoli Local Authorities' Constituency	1	
Amravati Local Authorities' Constituency	1	
Osmanabad-cum-Latur-cum-Beed Local Authorities' Constituency.	1	

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHWANI KUMAR,
Principal Secretary and Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi, dated the 26th April 2018
Vaisakha 6, 1940 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 322/MT-LC/2018(LACs).— Whereas, the Governor of the State of Maharashtra has, by Notification issued under section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the *Official Gazette* of the State on 26th April 2018, been pleased to call upon each of the Council Constituencies, specified in column (2) of the Table below, to elect the number of member(s) specified against that constituency in column (3) of the said Table, to the Legislative Council of the State of Maharashtra :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of the Local Authorities' Constituencies (2)	No. of member(s) to be elected (3)
1.	Raigad-cum-Ratnagiri-cum-Sindhudurg Local Authorities' Constituency	1
2.	Nashik Local Authorities' Constituency	1
3.	Wardha-cum-Chandrapur-cum-Gadchiroli Local Authorities' Constituency	1
4.	Parbhani-cum-Hingoli Local Authorities' Constituency	1
5.	Amravati Local Authorities' Constituency	1
6.	Osmanabad-cum-Latur-cum-Beed Local Authorities' Constituency	1

Now, therefore, in pursuance of sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby :—

(A) Appoints, with respect to the said election,—

- (a) the 3rd May 2018 (Thursday), as the last date for making nominations ;
- (b) the 4th May 2018 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) the 7th May 2018 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) the 21st May 2018 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) the 29th May 2018 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed ; and

(B) fixes the hours from 8-00 A.M. to 4-00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

R. K. SRIVASTAVA,
Sr. Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 26 अप्रैल 2018
वैशाख 6, 1940 (शक)**अधिसूचना**

सं. 322/महा.-वि.प./2018 (स्था.प्रा.).— यतः, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में, 26 अप्रैल 2018 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद के लिए नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1
नासिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1
वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1
परभणी-हिंगोली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1
अमरावती स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1
उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	1

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :—

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में.—

- | | |
|--|----------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख | - 3 मई 2018 (गुरुवार) ; |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | - 4 मई 2018 (शुक्रवार) ; |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | - 7 मई 2018 (सोमवार) ; |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, | - 21 मई 2018 (सोमवार) ; और |
| (ङ) वह तारीख जिसको पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लियो जाएगा नियत करता है और | - 29 मई 2018 (मंगलवार) ; |

(आ) 8-00 बजे पूर्वाह्न से 4-00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव,
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

क्रमांक बीआयई. २०१८/प्र. क्र. २७२/१८/३३,

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक २६ एप्रिल २०१८.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.—

- (१) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
- (२) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, परभणी, हिंगोली, अमरावती, उस्मानाबाद, लातूर व बीड.
- (३) निवडनस्ती.

शि. म. धुळे,

अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य.